

RKL/SX/2025-26/11

May 7, 2025

**BSE Ltd.**

Phiroze Jeejeeboy Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400001

**Scrip Code: 532497**

**National Stock Exchange of India Ltd.**

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot no. C/1,  
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051

**Scrip code: RADICO**

**Subject: Submission of copies of Newspaper Advertisements**

**Ref: Disclosure under Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)**

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter no. RKL/SX/2025-26/08 dated May 06, 2025 and pursuant to Regulation 30 and 47 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. May 7, 2025 in Business Standard (English), Economic Times (English) and Hindustan, Moradabad edition (Hindi) with respect to Statements of Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company’s website at: <http://www.radicokhaitan.com/investor-relations/>

This is for your information and records.

Thanking You,

For **Radico Khaitan Limited**

**Dinesh Kumar Gupta**

**Senior VP - Legal & Company Secretary**

Email Id: [investor@radico.co.in](mailto:investor@radico.co.in)

*Encl: A/a*

**RADICO KHAITAN LIMITED**

Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-op. Industrial area  
Mathura Road, New Delhi-110044

Ph: (91-11) 4097 5444/555 Fax: (91-11) 4167 8841-42

Registered Office: Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur-244901 (UP.)

Phones: 0595-2350601/2, 2351703 Fax: 0595-2350008

E-mail: [info@radico.co.in](mailto:info@radico.co.in), website: [www.radicokhaitan.com](http://www.radicokhaitan.com)

CIN No.: L26941UP1983PLC027278

# India ranks 130th on UNDP's Human Development Index

The country's human development value has risen by 53% since 1990

SHIVA RAJORA  
New Delhi, 6 May

India ranked 130th on the Human Development Index, out of 193 countries and territories, according to the 2025 Human Development Report (HDR) released on Tuesday by the United Nations Development Programme (UNDP).

The latest UNDP report noted that India improved its HDI value from 0.676 in 2022 to 0.685 in 2023, with the country remaining in the medium human development category, although moving closer to the threshold for high human development (HDI > 0.700). It also noted that India's HDI value has increased by over 53 per cent since 1990, growing faster than both the global and South Asian averages.

Iceland, with an HDI value of 0.972, ranked at the top of the Index, followed by Norway and Switzerland. South Sudan was at the bottom at 193 with 0.388.

"This advancement reflects sustained improvements in key dimensions of human development, particularly in mean years of schooling and national income per capita. India's life expectancy reaching its highest level since the inception of the



Index is a testament to the country's robust recovery from the pandemic and its investments and commitment to long-term human well-being," said Angela Lusigi, resident representative, UNDP India.

However, the report also noted challenges among which inequality is primary as it reduces India's HDI by 30.7 per cent, one of the highest losses in the region.

"While health and education inequality have improved, income and gender disparities remain significant. Female labour

## LEADERBOARD

HDI ranking and value (2023)

Rank	Country	HDI value
1	Iceland	0.972
2	Norway	0.970
2	Switzerland	0.970
4	Denmark	0.962
5	Germany	0.959
5	Sweden	0.959
7	Australia	0.958
8	Hong Kong, China (SAR)	0.955
8	Netherlands	0.955
17	United States	0.938
130	India	0.685

HDI: Human Development Index  
Source: UNDP Human Development Report 2025

force participation and political representation lag, though recent steps—such as the constitutional amendment reserving one-third of legislative seats for women—offer promise for transformative change," said UNDP in a statement.

Among India's neighbours, China (75th), Sri Lanka (78th) and Bhutan (127th) are ranked above India, while Bangladesh (130th) is ranked at par. Nepal (145th), Myanmar (149th), Pakistan (168th) are ranked below India.

# Indians may hit pause on US travel plans amid visa worries

Tourists hesitant to visit America due to frequent policy changes there

AKSHARA SRIVASTAVA & DEEPAK PATEL  
New Delhi, 6 May

Travel to the United States (US), especially leisure, by Indians is likely to take a hit in the coming months due to frequent policy changes by the US administration and visa cancellations.

According to tour operators, Indians are becoming cautious of travel to the US, with some even rethinking their travel plans to visit the country.

"There has been a marginal dip in bookings for travel to the US. However, what is evident is a certain hesitancy, especially among senior citizens and not-so-frequent travellers," said Ajay Prakash, vice-chairman, Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality.

"It is likely that leisure travel to the States will come down," he added.

According to industry executives, there is a sense that the number of visas being granted by the US will also come down.

"The volatility of the situation, Trump's ambiguous stand on India, fewer visa slots, and India's non-inclusion in the visa waiver programme have all led to a sense of hesitation among Indians travelling to the US," said an industry executive on the condition of anonymity.

According to the American Immigration Lawyers Association (AILA), of the 327 reports of visa revocations and SEVIS terminations gathered by it from



attorneys, students, and university staff across the country, 50 per cent students were from India.

"This might start to reflect in numbers in the coming few months, depending on how the situation evolves," the executive added. India is one of the biggest source markets for travel to the US, with its significant Indian diaspora, leading to frequent travel between the two countries.

In the first 10 months of 2024, around 1.9 million Indians visited the US, a 27 per cent increase from the same period last year. In 2023, the US had witnessed 17 million Indian arrivals.

American hospitality chains have also flagged the possible impact of US President Donald Trump's policies.

Speaking at the Skift India Forum last month, Anthony Capano, president and

## GROWING CONCERNS

- Tour operators, planners note dip in bookings
- According to industry executives, the number of visas being granted by the US to come down
- American hospitality chains have also flagged the possible impact of Trump's policies
- Industry insiders say the travel is likely to take a larger dip compared to business or official travel

chief executive officer, Marriott International, had stated while it is hard to imagine pullback from inbound tourists on a wholesale basis, "tough tariff talk" could lead to pullback.

To be sure, leisure travel is likely to take a larger dip compared to business or official travel, industry insiders said, pointing to the unchanged frequency in flights operating between the two countries.

According to data, a total of 130 non-stop weekly flights currently operate between India and the US, with Air India being the largest operator on the route, with 102 weekly services. United Airlines and American Airlines each operate 14 weekly flights. The two US-based carriers have been unable to increase their frequencies due to a ban on using Russian airspace imposed by the US government.

## Betting can never be a game of skill: Centre to SC

The Centre on Tuesday reiterated its stand that gambling, irrespective of whether it is done on a game of skill or chance, will still be categorised as gambling and therefore taxed accordingly.

"Not running on the horse, but when you bet on a horse, is it a game of skill or chance? Horse racing is a competition of speed depending on a variety of changes and uncertain factors. Thus horse racing has an element of gambling. Betting can never be a game of skill," Additional Solicitor General N Venkataraman, appearing for the Centre argued.

The Supreme Court, in response, observed that jockeys could also make a horse run by virtue of the skill of the animal. A two-judge Bench of Justices JB Pandit and R Mahadevan is hearing a bunch of pleas moved by online gaming companies challenging 28 per cent goods and services tax on all forms of online real-money gaming. BHAVINI MISHRA

**[ TECH DIGEST ]**  
mybs.in/tech

**MOTOROLA RAZR 60 ULTRA LAUNCHING SOON**

Motorola is preparing to introduce its flip-style Razer 60 Ultra smartphone in the Indian market. Launched in the US last month, the Razer 60 Ultra is powered by the Qualcomm Snapdragon 8 Elite processor. It comes equipped with a 7-inch primary screen and a 4-inch external display.

**Perplexity Comet to challenge Chrome**

Perplexity is set to launch a new AI-integrated web browser called Comet. The AI startup describes Comet as "a browser for Agent Search by Perplexity," indicating that it will feature AI tools aimed at performing tasks on user's behalf.

**GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**  
Sander Patel Vidyut Shivan, Race Courses, Vadodra-390 007 www.getco.gujarat.com

**TENDER NOTICE NO. C E (P&C) : TN-19: 2024-2025**

**[A] Line: CE(P&C)/Contracts/E-305/TL/765KV:- Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of 765KV D/C Som Pipaliya (Saurashtra) - Vataman line having route length 118.186 km with Hexa ACSR Zebra conductor (WZ-5) on turnkey basis under GEC-II Scheme. Above Tender is available on website [www.getco.gujarat.com](http://www.getco.gujarat.com) (for view and download only) & [tender.procure@getco.com](mailto:tender.procure@getco.com) (For view, download and online tender submission). Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the tender.**

Date: 07/05/2025 Chief Engineer (Procurement & Contracts)

www.bankofbaroda.in

**Bank of Baroda**

**FACILITIES MANAGEMENT DEPARTMENT BARODA CORPORATE CENTRE, MUMBAI**

**TENDER NOTICE**

Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai invites Tender for Purchase of 2/2.5 BHK Residential Flats at Various locations in Mumbai & Navi Mumbai.

Details of Tender are available on Bank's website [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) under Tender section.

Any "Addendum/Corrigendum" including modifications in the Tender document shall be notified on the Tenders section of Bank's Website [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in). Bidders should refer those Addendum/Corrigendum before final submission of the proposal.

Last date and time for bid submission: **28<sup>th</sup> May, 2025 up to 15:00 hrs.**

Place: **Mumbai** General Manager & Head (FM, COA, Security, PD & RDP)

Date: **07.05.2025**

Your security is our priority! Never share your card details, PIN, or password with anyone. The bank will never ask for such sensitive information. Stay alert and enjoy safe banking with Bank of Baroda.

**ONESOURCE SPECIALTY PHARMA LIMITED (FORMERLY STELIS BIOPHARMA LIMITED)**  
Registered Office: Unit No. 902, "Cyber One" situated at Plot No. 4 & 6, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400703  
T: +91 22 2789 2924 F: +91 22 2789 2942

Corporate Office: Star 1, Opp IIM Bangalore, Bilekahalli, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560076, India T: + 91 80 6784 0738  
CIN: L74140MH2007PLC432497 Email: [info@onesourcecdmo.com](mailto:info@onesourcecdmo.com), Website: [www.onesourcecdmo.com](http://www.onesourcecdmo.com)

**Statement of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025**

(₹ in Million)

Sr No	Particulars	Standalone				
		Quarter ended 31-Mar-2025	Quarter ended 31-Dec-2024	Quarter ended 31-Mar-2024	Year ended 31-Mar-2025	Year ended 31-Mar-2024
1	Total Income(net)	4,813.23	3,426.55	757.77	13,172.71	1,761.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,748.77	275.00	(399.91)	907.95	(2,490.00)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,748.77	(730.23)	(400.12)	(214.55)	(3,649.34)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,748.77	(730.23)	(400.12)	200.00	(3,649.34)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,742.66	(730.23)	(400.08)	163.45	(3,909.27)
6	Equity Share Capital (Face Value per share ₹. 1/-)	114.43	114.43	40.10	114.43	40.10
7	(Net Worth (excl. Revaluation Reserve & Capital Reserve)	59,201.01	57,480.28	3,977.43	59,201.01	3,977.43
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) in ₹ (for continuing and discontinued operations)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)	(annualised)
	Basic	15.22	(6.69)	(9.63)	1.75	(93.97)
	Diluted	15.19	(6.69)	(9.63)	1.75	(93.97)

(₹ in Million)

Sr No	Particulars	Consolidated				
		Quarter ended 31-Mar-2025	Quarter ended 31-Dec-2024	Quarter ended 31-Mar-2024	Year ended 31-Mar-2025	Year ended 31-Mar-2024
1	Total Income(net)	4,288.43	3,992.81	757.79	14,623.27	1,761.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	835.02	340.21	(401.49)	437.79	(2,497.55)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	835.02	(665.02)	(401.70)	(670.66)	(3,656.97)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	991.92	(688.49)	(401.70)	(172.81)	(3,656.97)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,006.91	(707.19)	(400.54)	(211.46)	(3,916.96)
6	Equity Share Capital (Face Value per share ₹ 1/-)	114.43	114.43	40.10	114.43	40.10
7	(Net Worth (excl. Revaluation Reserve & Capital Reserve)	58,805.79	57,821.34	3,957.13	58,805.79	3,957.13
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) in ₹ (for continuing and discontinued operations)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)	(annualised)
	Basic	8.61	(6.31)	(9.67)	(1.63)	(94.15)
	Diluted	8.59	(6.31)	(9.67)	(1.63)	(94.15)

Note:

- The above is an extract of the detailed format at the Statement of Standalone and Consolidated Financials Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financials Results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the website of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the Company's website at [www.onesourcecdmo.com](http://www.onesourcecdmo.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
- The Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") has approved the Scheme through its order dated November 14, 2024 (the "Order") with the appointed date of April 01, 2024. Since the Scheme is effective April 01, 2024, the Financial Information for the periods ended March 31, 2025 and December 31, 2024 include the operations of the acquired business and accordingly the previous period figures are not comparable.
- The above results have been reviewed by the Audit and Compliance Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 05, 2025. The results have been reviewed by the statutory auditors of the Company.
- The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

By order of the Board  
Neeraj Sharma  
Managing Director  
Place: Bengaluru  
Date: May 05, 2025

**RAMPUR**  
ESTD 1943

**Radico Khaitan Limited**  
CIN: L26941UP1983PLC027278  
Registered Office: Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)  
Tel.: 0595-2350601/2, 2351703 Fax: 0595-2350009  
Corp. Off.: Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi-110044  
Tel.: 011-40975444/555 Fax: 011-41678841/42 Email ID: [investor@radico.co.in](mailto:investor@radico.co.in) Website: [www.radicoKhaitan.com](http://www.radicoKhaitan.com)

**Extract of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Year ended March 31, 2025**  
(₹ in Crores except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter ended 31.03.2025 (Refer Note 4)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Refer Note 4)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Refer Note 4)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Refer Note 4)	Year ended 31.03.2024 (Audited)		
1.	Total income from Operations	4,486.81	4,441.98	3,896.87	17,103.39	15,492.75	4,486.81	4,441.98	3,896.87	17,103.39	15,492.75
2.	Net Profit (before Tax and Exceptional Items)	121.50	129.92	76.53	464.62	342.03	122.87	129.42	73.67	465.04	348.46
3.	Net Profit after tax (after Exceptional Items)	121.50	129.92	76.53	464.62	342.03	122.87	129.42	73.67	465.04	348.46
4.	Net Profit after tax (after Exceptional Items)	90.71	95.98	56.79	345.19	255.76	92.07	95.49	53.91	345.61	262.17
5.	Total Comprehensive Income for the period	88.42	95.42	59.12	341.21	256.69	89.85	94.92	56.25	341.66	263.05
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- per share)	26.76	26.76	26.74	26.76	26.74	26.76	26.76	26.74	26.76	26.74
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	2,664.25	2,350.63	-	-	-	2,726.95	2,412.88
8.	Earning per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs.2/- each)										
	(a) Basic	6.78	7.18	4.25	25.81	19.13	6.88	7.14	4.03	25.84	19.61
	(b) Diluted	6.78	7.17	4.25	25.79	19.13	6.88	7.13	4.03	25.82	19.61

Notes:

- The Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 (the "Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on Tuesday, May 06, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on financial results.
- The above is an extract of detailed format of Financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the website of the Stock Exchanges websites (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on Company's website i.e. [www.radicoKhaitan.com](http://www.radicoKhaitan.com)
- During the quarter, the company has allotted 19,766 Equity Shares on exercise of Employee Stock Option Scheme 2006 by the eligible employees.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date reviewed figures upto the third quarter of years ended March 31, 2025 and March 31, 2024.
- The Board of Directors of the Company recommended a Dividend of 200% i.e. Rs. 4.00 per equity share of face value of Rs. 2.00 each amounting to Rs.5352.30 lakhs for the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Complete results can also be accessed by scanning QR Code.

For and on behalf of the Board  
Radico Khaitan Limited  
Dr. Lalit Khaitan  
Chairman & Managing Director  
DIN No. 00238222

New Delhi  
May 6, 2025



Trade Forecast \$120 B by '30

From Page 1

US President Donald Trump's tariff proposals are set to kick in early July, following a 90-day deferment. Notably, the US has said India will likely be one of the first countries with which Washington will sign a trade accord, talks on which are ongoing, giving it a head start.

Meanwhile, business leaders on both sides welcomed the India-UK accord, saying it would lead to a surge in opportunities.

Bilateral trade is projected to rise to \$120 billion by 2030. As many as 14 rounds of negotiations took place between India and the UK over the FTA. Trade between India and the UK rose to \$21.34 billion in FY25 from \$20.36 billion in FY24.

Sensitive items such as dairy products, apples and cheese have been excluded from any duty concession by India to protect its farmers, the Centre said.

New Delhi has secured an exemption for Indian workers who are temporarily in the UK and their employers from paying social security contributions there for three years under the Double Contribution Convention. This will make Indian service providers more competitive in the UK, with savings pegged at around 20% of salaries. This is expected to benefit more than 60,000 IT sector employees alone. Benefits to Indian companies and employees are expected to exceed \$1,000 crore.

"Delighted to speak with my friend, PM @Keir Starmer. In a historic milestone, India and the UK have successfully concluded an ambitious and mutually beneficial Free Trade Agreement, along with a Double Contribution Convention," Modi posted on X. "These landmark agreements will further deepen our comprehensive strategic partnership, and catalyse trade, investment, growth, job creation, and innovation in both our economies. I look forward to welcoming PM Starmer to India soon."

The FTA takes place in the backdrop of growing economic relations between India and the UK.

"Through pragmatism and purpose, the leaders noted that this historic deal is the biggest the UK has done since leaving the EU, and the most ambitious India has ever done," the UK said in a statement. "Prime Minister Modi also thanked the Prime Minister for his decisive leadership in getting the deal over the line."

Deal may Ease Investor Concerns

From Page 1

HDB Financial Services reported a decline in net profit for the March quarter at Rs 530.9 crore, compared to Rs 656 crore a year earlier. Gross stage 3 assets increased to 2.29%, from 1.90% a year ago, while return on assets fell to 1.8% from 3% in the previous year.

MUF's entry into HDB's cap table could help ease investor concerns over HDFC Bank potentially being required to reduce its stake to 20% under the proposed RBI regulations. Following the stake sale deal with MUF, HDB may also reconsider a pre-IPO placement—either opting for a much smaller pre-IPO or possibly forgoing it altogether.

Spokespersons at HDFC Bank and MUF declined to comment.

Shares of some of the larger companies in the unsecured loan segment have rebounded in recent months.

Working Capital Debt

From Page 1

The New Delhi-based company raised working capital debt through KredX using its unpaid invoices as security.

Typically, companies raise debt in this form from banks but startups such as KredX allow retail investors to make such investments as well.

Ankur Jain, founder of B9

Beverages, told ET the company has worked with KredX for over six years and has been meeting all obligations to platforms and lenders to the fullest.



"Any delays on specific limits are pre-aligned with KredX in accordance with the provisions of the agreements and we are not in default of any obligations," he said.

KredX did not respond to ET's queries.

Liquidity Troubles

Over the past year, B9 Beverages has borrowed around Rs 60 crore through fintech firms such as Yubi and venture debt funds like Alteria Capital, according to the Registrar of Companies filings. It has also picked up venture debt from Trifecta Capital and Anicut Capital.

Jain said there hadn't been any delay in repayments. "There are liquidity issues that the company is facing...but the management has told lenders that it is in the process of raising funds that will help it manage debt repayment," one of the investors told ET.



## हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड


### Hindustan Petroleum Corporation Limited

एक महारत्न सीपीएसई | A Maharatna CPSE CIN: L23201MH1952GOI008858

**STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2025**


(Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015)

The results can be accessed through the following link or scan:  
<https://www.hindustanpetroleum.com/images/pdf/FinResQ4FY2025.pdf>



By order of the Board  
Hindustan Petroleum Corporation Limited  
sd/-  
Rajneesh Narang  
Director - Finance  
(Whole - time Director)  
DIN - 08188549

Date: 06/05/2025 Place: Mumbai



Petroleum House, 17, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400 020  
Website: [www.hindustanpetroleum.com](http://www.hindustanpetroleum.com) | email: [corphqo@hpcl.in](mailto:corphqo@hpcl.in)

QUARTERLY HIGHLIGHTS				YEARLY HIGHLIGHTS			
₹ 3,355 Cr.				₹ 7,365 Cr.			
Standalone PAT				Standalone PAT			
6.74 MMT				25.27 MMT			
Crude Thruput				Highest Ever Crude Thruput			
12.70 MMT				49.82 MMT			
Sales Volume				Highest Ever Sales Volume			
3.0%				6.4%			
Final Dividend : ₹ 10.50/Share							

# POLYCAB

## SURPASSING THE EXCEPTIONAL

At Polycab, performance isn't just measured, it's engineered. With Project Leap delivered ahead of time, we've laid a strong foundation for operational excellence and agile execution.


Project Spring now carries that energy forward, sharpening our edge and accelerating the path to our future goals.



(₹ in million)	Q4 FY25	Q4 FY24	Growth
Revenue	69,858	55,919	25%
Profit After Tax	7,344	5,535	33%

This is an abridged representation of the audited consolidated results for the quarter ended 31<sup>st</sup> March 2025, and is not for the purpose of legal compliances. For full result, visit [www.polycab.com](http://www.polycab.com) or scan the QR code.





## Radico Khaitan Limited


CIN : L26941UP1983PLC027278  
Registered Office: Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)  
Tel. : 0595-2350601/2, 2351703 Fax : 0595-2350009  
Corp. Off. : Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi-110044  
Tel. : 011-40975444/555 Fax : 011-41678841/42 Email ID : [investor@radico.co.in](mailto:investor@radico.co.in) Website: [www.radicoalkhaitan.com](http://www.radicoalkhaitan.com)

**Extract of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Year ended March 31, 2025**  
(₹ in Crores except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter ended 31.03.2025 (Refer Note 4)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Refer Note 4)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Refer Note 4)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Refer Note 4)	Year ended 31.03.2024 (Audited)		
1.	Total Income from Operations	4,486.81	4,441.98	3,896.87	17,103.39	15,492.75	4,486.81	4,441.98	3,896.87	17,103.39	15,492.75
2.	Net Profit (before Tax and Exceptional Items)	121.50	129.92	76.53	464.62	342.03	122.87	129.42	73.67	465.04	348.46
3.	Net Profit before Tax (after Exceptional Items)	121.50	129.92	76.53	464.62	342.03	122.87	129.42	73.67	465.04	348.46
4.	Net Profit after Tax (after Exceptional Items)	90.71	95.98	56.79	345.19	255.76	92.07	95.49	53.91	345.61	262.17
5.	Total Comprehensive Income for the period	88.42	95.42	59.12	341.21	256.69	89.85	94.52	56.25	341.66	263.05
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- per share)	26.76	26.76	26.74	26.76	26.74	26.76	26.76	26.74	26.76	26.74
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	2,664.25	2,350.63	-	-	-	2,726.95	2,412.88
8.	Earning per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs.2/- each)										
	(a) Basic	6.78	7.18	4.25	25.81	19.13	6.88	7.14	4.03	25.84	19.61
	(b) Diluted	6.78	7.17	4.25	25.79	19.13	6.88	7.13	4.03	25.82	19.61

**Notes:**

- The Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 (the "Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on Tuesday, May 06, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on financial results.
- The above is an extract of detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the website of the Stock Exchanges websites (NSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on Company's website i.e. [www.radicoalkhaitan.com](http://www.radicoalkhaitan.com).
- During the Quarter, the Company has allotted 19,756 Equity Shares on exercise of Employee Stock Option Scheme 2006 by the eligible employees.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date reviewed figures upto the third quarter of years ended March 31, 2025 and March 31, 2024.
- The Board of Directors of the Company recommended a Dividend of 200% i.e. Rs. 4.00 per equity share of face value of Rs. 2.00 each amounting to Rs.5,352.30 lakhs for the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Complete results can also be accessed by scanning QR Code.



New Delhi  
May 6, 2025

For and on behalf of the Board  
Radico Khaitan Limited  
Sd/-  
Dr. Lalit Khaitan  
Chairman & Managing Director  
DIN No. 00238222

